



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2006 (वैशाख 30, 1928)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2006 (VAISAKHA 30, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	385	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	439	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	5	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1367
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	651	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	225
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1509
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	415
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	385	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	439	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1367
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	651	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1509
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	415
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2006

संकल्प

विषय:- वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन ।

संख्या ई-11011/1/2005-हिंदी : वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 04.10.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए क्र.सं. 2 पर वस्त्र राज्य मंत्री को समिति के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाता है । अब इस संबंध में जारी 04.10.2005 के संकल्प में क्र.सं. 2 से 36 तक क्रमशः 3 से 37 हो जाएंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

भूपेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2006

संकल्प

सं0ई0 11015(3)/2004-हिंदी (.), इस मंत्रालय के दिनांक 30 नवंबर, 2004 और 13 दिसंबर, 2004 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात राज्य मंत्री को इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष तथा संसदीय राजभाषा समिति के 9 मार्च, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25011/3/2004-समिति-5 के अनुपालन में श्री मनोज कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय, संसद सदस्य (राज्य सभा), 124, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली को सदस्य नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अप्रैल 2006

सं. एफ 9-4/2005-स्टैट

शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने की मौजूदा पद्धति में फेरबदल करने हेतु भारत सरकार एतद्द्वारा शिक्षा संबंधी आंकड़ों के संबंध में एक समीक्षा समिति गठित करती है जिसमें समीक्षा समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं:-

1. पैरामीटरों के पूर्ण सेट को अभिनिर्धारित करना जिसके आधार पर मंत्रालय वार्षिक आंकड़े एकत्र करेगा।
2. उन स्तरों (अर्थात् विद्यालय, ब्लाक, कस्बा/शहर, जिला, राज्य, देश) को अभिनिर्धारित करना जिन पर आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित किया जाना चाहिए।
3. प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित पद्धतियों और प्रक्रियाविधियों की सिफारिश करना ताकि अभिनिर्धारित स्तरों पर अभिनिर्धारित पैरामीटरों के आधार पर आंकड़े विश्वसनीय रूप से और यथा समय एकत्रित, संकलित और प्रकाशित किए जायें।
4. उन उपायों की सिफारिश करना जिनमें शैक्षिक आंकड़ों की पद्धति को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा पद्धति की गुणवत्ता और कारगरता का यंत्र बनाया जा सके।
5. संस्तुत पद्धति और प्रक्रियाविधियों के वित्तीय निहितार्थ का पता लगाना तथा उन्हें वहन करने के संबंध में सिफारिश करना।
6. किसी अन्य प्रासंगिक और संबंधित मामले पर सिफारिश करना।

2. उक्त समीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार होगी :-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री एस.सत्यम, पूर्व-सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव(सांख्यिकी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 4. उप-महानिदेशक (सामाजिक क्षेत्र प्रभाग), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 5. निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली के नामिती। | सदस्य |
| 6. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली के नामिती। | सदस्य |

7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली अथवा उनके नामिती। सदस्य
8. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
अथवा उनके नामिती। सदस्य
9. डा. अरुण मेहता, फेलो, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन
संस्थान, नई दिल्ली। सदस्य
10. डॉ. अवतार सिंह, प्रोफेसर और अध्यक्ष, शैक्षिक सर्वेक्षण तथा
डाटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
नई दिल्ली। सदस्य
11. डा. विनोद रैना, सदस्य, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। सदस्य
12. डा. ए.बी.एल. श्रीवास्तव, मुख्य परामर्शदाता, एडसिल, नई दिल्ली। सदस्य
13. शिक्षा सचिव, (विद्यालय शिक्षा) सदस्य
असम सरकार अथवा उनके नामिती
14. शिक्षा सचिव (विद्यालय शिक्षा) सदस्य
महाराष्ट्र सरकार अथवा उनके नामिती
15. शिक्षा सचिव (विद्यालय शिक्षा) उत्तर प्रदेश सदस्य
सरकार अथवा उनके नामिती
16. संयुक्त निदेशक (आयोजना) सांख्यिकी प्रभाग, मानव
संसाधन विकास मंत्रालय। सदस्य सचिव
3. समिति को इस प्रकार की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों को सहयोजित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
4. समीक्षा समिति की बैठकों के संबंध में होने वाले सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का खर्च सदस्यों के मूल विभाग/संगठन वहन करेंगे। गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमत्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के पात्र होंगे और यह खर्च राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली वहन करेगा।
5. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली समीक्षा समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।
6. यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

केशव देसिराजू
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi-110011, the 26th April 2006

RESOLUTION

Subject: Reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Textiles.

No.E.-11011/1/2005-Hindi : In partial modification of even number resolution dated 04.10.2005 regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Textiles, Minister of State for Textiles is included at serial no. 2 as vice-chairman of the committee. In the above-mentioned resolution issued on 04.10.2005, serial no. 2 to 36 will now be substituted by serial no. 3 to 37 respectively.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BHUPENDRA SINGH
Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 2nd May 2006

Resolution

No.E.11015(3)/2004-Hindi (.). In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 30th Nov. 2004 and 13th Dec. 2004, Minister of State for Steel is nominated as Vice Chairman of Hindi Advisory Committee of Ministry of Steel and in compliance of Committee of Parliament on Official Languages O.M. No. 25011/3/2004-Samiti-5 dated 9.3.2006, Prof. Alka Balram Kshatriya, MP (Rajya Sabha), 124, South Avenue, New Delhi is nominated as member in place of Shri Manoj Kumar, MP(Lok Sabha).

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

AJOY KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110001, the 24th April 2006

No.F.9-4/2005-Stat.

The Government of India, hereby, constitutes a Review Committee on Educational Statistics to revamp the existing system of collection of educational statistics with the following Terms of Reference of the Review Committee:-

- 1 To identify complete set of parameters on which the Ministry should collect statistics annually.
- 2 To identify levels (e.g. schools, blocks, town/city, districts, states, country) at which data should be compiled and published.
- 3 To recommend systems and procedures including use of technology, so that data on the identified parameters at identified levels is collected, compiled and published in a reliable and timely manner.
- 4 To recommend ways in which new system of educational statistics can be made an instrument for improving quality and effectiveness of the education system at various levels.
- 5 To work-out financial implications of the recommended system and procedures and recommend how they should be borne.
- 6 To give recommendations on any other relevant and incidental matter.

2. The composition of the said Review Committee shall be as under:

- | | |
|--|----------|
| 1. Sh. S. Sathyam, Former Secretary, Ministry of Statistics & Programme Implementation | Chairman |
| 2. Joint Secretary (Stat.), M/o HRD, Department of Secondary & Higher Education, New Delhi | Member |
| 3. Joint Secretary (EE), M/o HRD, Department of Elementary Education, New Delhi | Member |
| 4. Deputy Director General (Social Sector Division), Central Statistical Organization, New Delhi | Member |
| 5. Nominee of Director, Indian statistical Institute, New Delhi | Member |
| 6. Nominee of Director General, National Informatics Centre, New Delhi | Member |
| 7. Secretary, University Grants Commission, New Delhi or his nominee | Member |

20/4/06

8.	Member Secretary, All India Council for Technical Education, New Delhi or his nominee	Member
9.	Dr. Arun C. Mehta, Fellow National Institute of Education Planning and Administration, New Delhi	Member
10.	Dr. Avtar Singh, Professor and Head of the Department of Education Survey and Data Processing, NCERT, New Delhi	Member
11.	Dr. Vinod Raina, Member, Central Advisory Board of Education	Member
12.	Dr. A.B.L. Srivastava, Chief Consultant, Ed.CIL, New Delhi	Member
13.	Education Secretary(School Education), Govt. of Assam or his nominee.	Member
14.	Education Secretary(School Education), Government of Maharashtra or his nominee.	Member
15.	Education Secretary (School Education), Govt. of Uttar Pradesh or his nominee.	Member
16.	Joint Director (Plg.), Statistics Division, Ministry of Human Resource Development	Member Secretary

3. The Committee shall have powers to co-opt additional members/special invitees as and when such need arises.

4. The expenditure on TA/DA to official members in connection with the meetings of the Review Committee will be borne by the parent departments/organizations to which the member belongs. Non-official members will be entitled to TA/DA as admissible to group 'A' officers of the Government of India and this expenditure will be borne by the National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.

5. Secretarial assistance to the Review Committee will be provided by the National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi

6. This Committee will submit its recommendations within the period of 6 months from the date of issue of gazette notification.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.